MUNJAL SHOWA LIMITED

Registered Office & Works: 9-11, Maruti Industrial Area, Sector - 18, Gurugram - 122 015 (Haryana) INDIA E-mail: msladmin@munjalshowa.net Website: www.munjalshowa.net Corporate Identity Number: L34101HR1985PLC020934, PAN: AAACM0070D Phone: 0124-4783000

November 14, 2022

The D.G.M. (Listing)
Corporate Relation Department
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001
Security Code: 520043

The Asst. Vice President
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, BandraKurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051
Security Code: MUNJALSHOW

Sub: Submission of Newspaper Advertisement for Unaudited Financial Results for the quarter ended September 30, 2022 under Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, please find enclosed herewith the copy of Newspaper advertisement published in newspapers viz. "Mint" in English language on November 14, 2022 and "Hindustan" in Hindi Language on November 14, 2022 for Unaudited Financial Results for the quarter ended September 30, 2022.

Kindly take the aforesaid information on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,
For MUNJAL SHOWA LIMITED

(Neha Bansal)
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: as above

विशेष टाडा कोर्ट के 1999 में आए फैसले के बाद हुई शुरुआत जेल में मुलाकात के दौरान सुनियोजित कानूनी प्रक्रिया रोपड़ी थीं प्रियंका : नलिनी के जरियेरिहा हुए सभी दोषी



श्याम सुमन **नर्ड दिल्ली।**सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषियों को रिहा कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री की मई 1991 में सुनियोजित आत्मघाती हमले में हत्या का यह एक जघन्य अपराध था, लेकिन अदालतों ने इसे साजिशन हुए कत्ल के एक सामान्य मुकदमे की तरह देखा। पूर्व प्रधानमंत्री की जितनी सुनियोजित तरीके से हत्या की गई थी, उतने ही सुनियोजित और बारीक ढंग से कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर दोषियों ने खुद को 30

साल के बाद रिहा करवा लिया। जेल में रहकर दोषियों ने उच्च शिक्षा हासिल की : इसकी शरुआत विशेष टाडा कोर्ट के 1999 में आए फैसले के बाद हुई, जब इस फैसले की अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की गई (तब निरस्त टाडा कानून में अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में करने का प्रावधान था)। जेल में रहकर दोषियों ने उच्च शिक्षा हासिल की।

तमिलनाडु सरकार की मुख्य **भमिका** : काँग्रेस ने रिहाई का विरोध किया है. लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन

पर 61 किलो

सोना जब्त

टाडा के आरोप हटा सजा बरकरार रखी

सप्रीम कोर्ट ने मई 1999 में इस मामले को सना और वारदात को आतंकवाद भी नहीं माना। दोषियों से टाडा के आरोप हटाकर विशेष टाडा कोर्ट से दोषियों (तीन) को मिली मौत की सजा को बरकरार रखा। इस फैसले के बाद दोषियों ने अक्तबर 1999 में दया याचिकाएं आजमानी शरू कीं।

सप्रीम कोर्ट ने रिहाई के

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि

निलनी ने जेल से ही कंप्यूटर

उनका चरित्र जेल में अच्छा रहा है।

एप्लीकेशन में पीजी डिप्लीमा लिया

है, वहीं मुरुगन ने कंप्यूटर में पीजी

मामला सप्रीम कोर्ट आया और कहा कि

संक्षिप्त कारण दिए

राज्यपाल के यहां पहली बार दया अर्जी दायर की

संविधान के अनुच्छेद-161 के तहत राज्यपाल के यहां पहली बार दया याचिका दायर की गई, लेकिन राज्यपाल ने कुछ ही दिनों में इसे खारिज कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर राज्यपाल ने फिर से दोबारा ठुकरा दिया।

डिग्री ली है। रविचंद्रन ने एमए किया। सभी ने सजा भूगत ली है, विचार किया और दया याचिका को इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। केंद्र का केंद्र सरकार ने रिहाई के खिलाफ दो बार सुप्रीम कोर्ट में प्रयास

किया, लेकिन कोर्ट ने 18 मई 2022 को आपत्तियां खारिज कर एजी

पेरारीवेलन को रिहा कर दिया। इसी आधार पर अन्य भी रिहा हुए।

अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने नलिनी से जेल में मुलाकात की थी। उसे माफ करने की मांग की थी। वह उस समय गर्भवती थी। तमिलनाडु सरकार ने सितंबर 2018 में प्रस्ताव पारित कर छोड़ने का निर्णय लिया था। केंद्र-राज्य विवाद : राज्यपाल ने

सजा माफी का अधिकार राज्य सरकार को ही है।। यहीं इस केस में निर्णायक मोड आया। सप्रीम कोर्ट ने दया याचिका के निपटारे में ढाई वर्ष की देरी देखते हए मामला राज्य सरकार के पास वापस नहीं भेजा और पेरारीवेलन को सीधे मामले को केंद्र सरकार को भेज दिया। रिहा करने का आदेश दे दिया।

चेन्नई, एजेंसी। पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के मामले में रिहा हुई दोषियों में से एक निलनी श्रीहरन ने रविवार को यहां कहा कि प्रियंका गांधी ने उनसे वर्ष 2008 में जेल में मुलाकात के दौरान अपने पिता राजीव गांधी की हत्या के बारे में पूछा।

निलनी ने मुलाकात के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रियंका गांधी जब एक दशक पहले वेल्लोर केंद्रीय कारागार में उनसे मिलीं तो वे भावुक हो गईं और रो पड़ीं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की नेता गांधी ने निलनी से मुलाकात के दौरान अपने पिता की हत्या के बारे में जानना चाहा था। निलनी ने कहा कि



वह जो कुछ भी जानती थी, उसके बारे में उन्हें बता दिया। उसने कहा कि मुलाकात में हुई अन्य बातों का खुलासा नहीं किया जा सकता. क्योंकि यह प्रियंका के निजी विचारों से संबंधित है। निलनी ने कहा कि तमिलनाडु सरकार से अनुरोध करती हूं कि पति को शिविर से रिहा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।



रिश्वतमांगनेपरसीजीएसटीकेदोअफसरगिरफ्तार

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के दो अधिकारियों को

में कथित तौर पर 75,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार

लिए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

MUNJAL *SHOWA* मुंजाल शोवा लिमिटेड

सीआईएनः L34101HR1985PLC020934

पंजीकृत कार्यालय एवं वर्क्सः प्लॉट न. 9-11, मारूति इंडस्ट्रियल एरिया, सैक्टर-18, गुरूग्राम-122015 (हरियाणा) फोनः +91–124–4783000; ई-मेलः pgupta@munjalshowa.net; वेबसाइट: www.munjalshowa.net

30 सितम्बर, 2022 को समाप्त दुसरी तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्धरण

(₹ लाखों में, प्रति अंश डाटा के अतिरिक्त)

		30 सितम्बर	30 सितम्बर	30 सितम्बर 2021 को समाप्त तीन माह	
		2022	2022		
す .	विवरण	को समाप्त	को वर्ष से		
सं.		तीन माह	तिथि तक		
		(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	
1	प्रचालनों से कुल आय	31,641.49	63,415.59	30,114.11	
2	कर एवं विशिष्ट मदों के पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ	891.93	1,559.90	779.65	
3	कर पूर्व एवं विशिष्ट मद पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ	891.93	925.70	779.65	
4	 कर पश्चात् एवं विशिष्ट मद पश्चात् अविध हेतु शुद्ध लाभ 		756.95	636.91	
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (कर पश्चात्)	763.89	824.30	636.91	
6	समता अंश पूँजी	799.93	799.93	799.93	
7	31 मार्च, 2022 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व				
8	प्रति अंश आय (₹ 2 प्रत्येक) (असाधारण मद ⁄ मदों के पश्चात्)	2.00	2.00	2.00	
	– मूलभूत (रुपये में)	1.81	1.89	1.60	
	– डाइल्यूटेड (रुपये में)	1.81	1.89	1.60	

स्थान : गुरूग्राम

दिनांक : 12 नवम्बर, 2022

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल किए गए त्रैमासिक वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों: www.nseindia.com एवं www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.munialshowa.net पर उपलब्ध हैं।

> कृते एवं मंडल की ओर से हस्ता. /-(योगेश चन्दर मुंजाल) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएनः 00003491

मुंबई हवाई अड्डे

मुंबई, एजें सी। मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 32 करोड़ का 61 किलोग्राम सोना जब्त किया है। इस मामले में सात यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं।

एक अधिकारी ने रविवार को दावा किया कि मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एक दिन में जब्त सोना की यह सर्वाधिक मात्रा है। अधिकारी ने बताया कि पहले अभियान में, तंजानिया से लौट रहे चार भारतीयों के पास एक किग्रा सोना जब्त किया गया।

WEDDING COLLECTION SALE Raymond

Extra fine Pure Wool, Silk, Linen & Cotton blended Fabrics For Formals, Casual & Party Wears

By Economy Sales: 9212758425

Latest Range of Designs & Colors

• SWEATER • SHIRT • TROUSER • SUIT • BLAZER ColorPlus ARROW raymond PARK AVENUE

PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
 WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
 JANAKPURI B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543
 NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
 LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

30.09.2022



डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, दिल्ली-110075 सीआईएनः U45202DL2020GOI368878/दरभाषः 011-25074100/25074200 ई-मेलः sqahmad@nhai.org । वेबसाइटः dmedl.in



31.03.2022

समाप्त पिछले वर्ष

30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (राशि रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	को समाप्त तिमाही	के लिए संगत तिमाही (अर्थात् 30.09.2021 को समाप्त तिमाही)	को समाप्त पिछला वर्ष
1.	परिचालनों से कुल आय	-	-	-
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, असाधारण और / या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व#)	(7.55)	(4.06)	(16.64)
3.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद#)	(7.55)	(4.06)	(16.64)
4.	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद#)	(5.59)	(4.06)	(12.31)
5.	अविध के लिए कुल व्यापक आय (अविध के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल}	(5.59)	(4.06)	(12.31)
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	367,900.00	313,300.00	313,300.00
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	(226.69)	(207.57)	(215.82)
8.	सिक्योरिटीज प्रीमियम एकाउंट	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
9.	नेटवर्थ	377,673.31	313,092.43	313,084.18
10.	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
11.	बकाया प्रतिदेय प्रीफरेंस शेयर	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
12.	ऋण इक्विटी अनुपात	6.39	4.66	6.89
13.	अर्जन प्रति शेयर (रु. 100 / – प्रत्येक) (चालू एवं बंद परिचालनों के लिए)			
	1. मूलः	-	-	-
	2. मंदितः	-	-	-
14.	पूंजी विमोचन संचित कोष	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
15.	डिबेंचर विमोचन संचित कोष	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
16.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
17.	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
0 0				

टिप्पणियां

तिथिः 11.11.2022

- 1. उपरोक्त सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। इसका पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.dmedl.in पर उपलब्ध है।
- 2. उपरोक्त परिणामों को 11.11.2022 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- 3. संगत अवधि के साथ तुलना करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हुआ पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहित / व्यवस्थित किया गया है।

कृते बोर्ड की ओर से डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड हस्ता. /-सैयद कमर अहमद

स्थानः दिल्ली निदेशक 30 सितम्बर 2022 को 31 मार्च 2022 को क्र.सं. अनुपात का नाम समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) ऋण-इक्विटी अनुपात 6.89 2. ऋण सेवा कवरेज अनुपात मान्य नहीं मान्य नही 3. ब्याज सेवा कवरेज अनुपात बकाया प्रतिदेय प्रीफरेंस शेयर (मात्रा एवं मूल्य) 4. मान्य नही मान्य नहीं 5. पूंजी प्रतिदान आरक्षित / डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित मान्य नहीं मान्य नहीं 6. 377,673.31 313.084.18 नेटवर्थ कर पश्चात शुद्ध लाभ (5.59)(12.31)8. अर्जन प्रति शेयर 9. वर्तमान अनुपात 0.64 40.00 10. कार्यशील पूंजी के लिए दीर्घकालिक ऋण मान्य नही मान्य नही <u>खाता प्राप्य अनुपात से अशोध्य</u> ऋण 11. मान्य नहीं मान्य नही 12. 0.03 कुल परिसंपत्तियों का कुल ऋण 13. 0.87 0.86 14. देनदार टर्नओवर मान्य नही मान्य नही 15. मालसूची टर्नओवर मान्य नहीं मान्य नही 16. ऑपरेटिंग मार्जिन (%) मान्य नहीं मान्य नही 17. शुद्ध लाभ मार्जिन (%) मान्य नहीं मान्य नही खंड निर्दिष्ट समकक्ष अनुपात, लागू अनुसार लागू नहीं लागू नहीं 18.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंसारी नगर, नई दिल्ली- 110029

फा.नं. 1-28/2021-स्था.-।(आरसीटी)

पद का नाम, 7वें सीपीसी के अनुसार पे मैट्रिक्स में पे लेवल और अनिवार्य पात्रता मानदंड	समूह	रिक्तियों* की कुल संख्या एवं आरक्षण	चयन की प्रक्रिया
वैज्ञानिक- ॥ (एनाटोमी) पे मैट्रिक्स में लेवल-11	ए	1-अ.पि.व.	साक्षात्कार
वैज्ञानिक- ॥(सीसीआरएफ) पे मैट्रिक्स में लेवल-11	ए	4 (1-अना.,1-ईंडब्ल्यूएस,1-अ.जा. व 1-अ.ज.जा.)	साक्षात्कार
वैज्ञानिक- । पे मैट्रिक्स में लेवल-10	ए	3 (1-अना.,1-अ.जा.,1-अ.ज.जा.)	साक्षात्कार
क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट/सायकोलॉजिस्ट पे मैट्रिक्स में लेवल-10	Ų	1-अना.	साक्षात्कार
मेडिकल फीजिसिस्ट पे मैट्रिक्स में लेवल-10	ए	3 (1-अना. *,1-अ.जा. ** व 1-अ.पि.व.) (*1-अना. पद पीडब्ल्यूबीडी- एलवी हेतु चिह्नित है, **1-अ.जा. पद पीडब्ल्यूबीडी-एचएच हेतु चिह्नित है)	साक्षात्कार
मेडिकल फीजिसिस्ट (न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग) पे मैट्रिक्स में लेवल-10	ų	1(अना.)	साक्षात्कार
ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर पे मैट्रिक्स में लेवल-11	Ų	०२ (१-अना.,१-अ.पि.व.)	साक्षात्कार
असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर पे मैट्रिक्स में लेवल-10	ए	02(अना.)	साक्षात्कार
जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर पे मैट्रिक्स में लेवल-10	ए	10 (५-अना.,1-अ.जा.,1-अ.ज.जा. व 3-अ.पि.व.)	साक्षात्कार
प्रोग्नामर पे मैट्रिक्स में लेवल-07	बी	3 (2-अना.* व 1-अ.जा.) (*1-अना. पद पीडब्ल्यूबीडी-ओए, ओएल, बीएल, एएवी, डीडब्ल्यू, एलसी(बीएल, ओए, ओएल) हेतु चिह्नित है)	सीबीटी
परफ्यूजनिस्ट पे मैट्रिक्स में लेवल-06	बी	1- अ.पि.व.	सीबीटी
असिस्टेंट डायटीशन पे मैट्रिक्स में लेवल-06	बी	5 (3-अना., 1-ईंडब्ल्यूएस व 1-अ.जा.*) (*अ.जा. पद पीडब्ल्यूबीडी-एलवी के लिए चिह्नित है)	सीबीटी
मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड. ॥ पे मैट्रिक्स में लेवल-06	बी	10 (४-अना.*, 2-अ.जा., 1-अ.ज.जा. व 3-अ.पि.व.) (*1-अना. पद पीडब्ल्यूबीडी-एलवी के लिए चिह्नित है)	सीबीटी
जूनियर फीजियोथैरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट पे मैट्रिक्स में लेवल-06	बी	जूनियर फीजियोधैरेपिस्ट - 05 (3-अना., 1-अ.जा. च 1-अ.ज.जा.*) (*अ.ज.जा. पद पीडब्ल्यूबीडी-एसएलडी) हेतु चिह्नित है)	सीबीटी
स्टोर कीपर (ड्रग्स) पे मैट्रिक्स में लेवल-06	बी	09 (4-अना., 1-अ.जा., 2-अ.ज.जा. व 2-अ.पि.व. *) (*1-अ.पि.व. पद पीडब्ल्यूबीडी-ओए, ओएल, बीएल, एएवी, डीडब्ल्यू, एलसी (ओए, ओएल, बीएल) हेतु चिह्नित हैं)	सीबीटी
स्टोर कीपर (जनरल) पे मैट्रिक्स में लेवल-06	बी	03 (2-अना. व 1-अ.पि.व.)	सीबीटी
जूनियर इंजीनियर(ए/सी व रेफ्रि.) पे मैट्रिक्स में लेवल-06	बी	02 (1-अना.* व 1-अ.ज.जा.) (*अना. पद पीडब्ल्यूबीडी-एचएच हेतु चिह्नित है)	सीबीटी
जूनियर इंजीनियर(सिविल) पे मैट्रिक्स में लेवल-06	बी	4 (1-अना., 2-अ.जा. च 1-अ.पि.व.)	सीबीटी
जूनियर इंजीनियर(इलेक्ट्रिकल) पे मैट्रिक्स में लेवल-06	बी	2 (1- अना. व 1-ईंडब्ल्यूएस)	सीबीटी
टेक्निशियन(रेडियोथैरेपी) ग्रेड पे मैट्रिक्स में लेवल-06	बी	3 (1-अना.*, 1-अ.ज.जा. 1-अ.पि.च.) (*अना. पद पीडब्ल्यूबीडी-एचएच के लिए चिह्नित है)	सीबीटी
स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट पे मैट्रिक्स में लेवल-06	बी	2 (1-अ.पि.व. व 1-अ.ज.जा.)	सीबीटी
ऑप्थाल्मिक टेक्निशियन ग्रेड पे मैट्रिक्स में लेवल-06	बी	03 (1-अ.जा., 1-अ.ज.जा. व 1-अ.पि.व.)	सीबीटी
टेक्निशियन(रेडियोलॉजी) पे मैट्रिक्स में लेवल-06	बी	12 (6-अना.* व 2-अ.जा., 1-अ.ज.जा. व 3-अ.पि.व.**) (*1-अना. पद पीडब्ल्यूबीडी-एएसडी, एमआई के लिए चिह्नित है, **1-अ.पि.व. पद पीडब्ल्यबीडी-एचएच हेत चिह्नित है)	सीबीटी
फर्मासिस्ट ग्रेड. पे मैट्रिक्स में लेवल-05	सी	18 (7-अना.*, 2-ईडब्ल्यूएस, 2-अ.जा., 3-अ.ज.जा. व 4-अ.पि.च.) *1-अना. पद पीडब्ल्यूबीडी-ओए, ओएल, बीएल, एएवी, डीडब्ल्यू, एलसी (ओए, ओएल, बीएल) हेतु चिह्नित है व *1-अना. पद पीडब्ल्यूबीडी-एचएच हेतु चिह्नित है)	सीबीटी
जूनियर फोटोग्राफर पे मैट्रिक्स में लेवल-05	सी	03 (1-अना., 1-ईंडब्ल्यूएस व 1-अ.पि.व.)	सीबीटी
ऑपरेशन धिएटर असिस्टेंट पे मैट्रिक्स में लेवल-ऽ	सी	44 (15-अना.,1-ईंडब्ल्यूएस, 4-अ.जा., 16-अ.ज.जा.* व 8-अ.पि.व.*) (*1-अ.ज.जा. व 2-अ.पि.व. पद पीडब्ल्यूडी- ओएल, एएवी, एलसी(ओएल) हेतु चिह्नित है)	सीबीटी
सेनेटरी इन्सपेक्टर ग्रेड पे मैट्रिक्स में लेवल-05	सी	4 (2-अना.*,1-अ.पि.व. व 1-अ.ज.जा.) (*1-अना. पद पीडब्ल्यूडी-एचएच हेतु चिह्नित है)	सीबीटी
न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट पे मैट्रिक्स में लेवल-05	सी	1 (अ.पि.व.*) (* अ.पि.व. पद पीडब्ल्यूबीडी-एचएच के लिए चिह्नित है)	सीबीटी
स्टेनोग्राफर पे मैट्रिक्स में लेवल-04	सी	14 (7-अना.*, 4-अ.जा.** व 3-अ.पि.व.) (*2-अना. पद पीडब्ल्यूडी-एएसडी, एमआई, एमडी हेतु चिह्नित है,**1-अ.जा. पद पीडब्ल्यूबीडी-ओएल, बीएल,	चरण- सीबीटी चरण- कौशल जांच
डेंटल टेक्निशियन ग्रेड पे मैटिक्स में लेवल-04	सी	03	सीबीटी
असिस्टेंट वार्डन	सी	01 (अ.पि.व.*)	सीबीटी
प माट्रक्स म लवल-04 सिक्योरिटी कम फायर गार्ड ग्रेड-॥ पे मैट्रिक्स में लेवल-02	सी	(* पद पाडब्ल्यूबाडा-एलवा हतु चिह्नित है) 35 (13-अना.*, 3-ईडब्ल्यूएस**, 4-अ.जा., 3-अ.ज.जा. व 12-अ.पि.व.) (*1-अना. व 1-ईडब्ल्यूएस पद पीडब्ल्यूबीडी-एएवी हेतु चिह्नित है)	चरण- ।; सीबीटी चरण- ।।;
			कौशल जांच
	पत का नाम, 7वं सीपीसी के अनुसार पे मैट्टिक्स में पे लेवल और अतिवार्थ पात्रता मानर्दंड वैज्ञानिक-II(स्तारोभी) पे मैट्टिक्स में लेवल-11 वैज्ञानिक-II(सीसीआरएफ) पे मैट्टिक्स में लेवल-10 विलानिकल सायकोलाँजिस्ट/सायकोलाँजिस्ट पे मैट्टिक्स में लेवल-10 विलानिकल सायकोलाँजिस्ट/सायकोलाँजिस्ट पे मैट्टिक्स में लेवल-10 मेडिकल फीजिसिस्ट (न्यृक्लियर मेडिसिन विभाग) पे मैट्टिक्स में लेवल-10 ब्लाइ ट्रांसप्युजन ऑफिसर पे मैट्टिक्स में लेवल-10 ब्लाइ ट्रांसप्युजन ऑफिसर पे मैट्टिक्स में लेवल-10 जाराल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर पे मैट्टिक्स में लेवल-10 जाराल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर पे मैट्टिक्स में लेवल-10 जाराल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर पे मैट्टिक्स में लेवल-07 परप्युजनिस्ट पे मैट्टिक्स में लेवल-06 असिस्टेंट डायटीशन पे मैट्टिक्स में लेवल-06 मेडिकल सोशल सर्विक्स ऑफिसर ग्रेड. II पे मैट्टिक्स में लेवल-06 मेडिकल सोशल सर्विक्स ऑफिसर ग्रेड. II पे मैट्टिक्स में लेवल-06 जानियर फीजियोथैरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट पे मैट्टिक्स में लेवल-06 जानियर कीपर (इन्स) पे मैट्टिक्स में लेवल-06 जानियर इंजीनियर(एसी व रेफ्रि.) पे मैट्टिक्स में लेवल-06 जानियर इंजीनियर(एसी वल) पे मैट्टिक्स में लेवल-06 जानियर इंजीनियर(इलेक्टिकल) पे मैट्टिक्स में लेवल-06 अंप्याल्मिक टेक्निशियन ग्रेड II पे मैट्टिक्स में लेवल-06 ऑप्याल्मिक टेक्निशियन ग्रेड II पे मैट्टिक्स में लेवल-06 ऑप्याल्मिक टेक्निशियन ग्रेड II पे मैट्टिक्स में लेवल-06 अंप्याल्मिक टेक्निशियन ग्रेड II पे मैट्टिक्स में लेवल-05 रटेनोग्राफर पे मैट्टिक्स में लेवल-04 सिक्योरिटी कम फायर गाई ग्रेड III पे मेट्टिक्स में लेवल-04 सिक्योरिटी कम फायर गाई ग्रेड III पे मेट्टिक्स में लेवल-04 सिक्योरिटी कम फायर गाई ग्रेड III	पद का नाम, 7वं सीपीसी के अनुसार पे मैट्टिक्स में पे लेवल और अनिवार्य पात्रता मानर्वड वैज्ञानिक-II(पनाटोमी) पृ वेट्टिक्स में लेवल-11 वैज्ञानिक-II(पनिपीक्ष पार्टिक्स में लेवल-11 वैज्ञानिक-II वेट्टिक्स में लेवल-11 पृ वेट्टिक्स में लेवल-10 पृ वेट्टिक्स में लेवल-11 व्याप्टिक्स में लेवल-11 असिस्टेट काढ़ ट्रांसप्युजन ऑफसर पृ वेट्टिक्स में लेवल-11 असिस्टेट काढ़ ट्रांसप्युजन ऑफसर पृ वेट्टिक्स में लेवल-10 विट्टिक्स में लेवल-10 विट्टिक्स में लेवल-10 विट्टिक्स में लेवल-10 विट्टिक्स में लेवल-06 असिस्टेट ड्टाक्टीप्टान पृ वेट्टिक्स में लेवल-06 असिस्टेट ड्राक्टीप्टान पृ वेट्टिक्स में लेवल-06 विट्टिक्स में लेवल-05 विट्टिक्स में लेवल-04 विट्टिक्स में में लेवल-04 विट्टिक्स में लेवल-04 विट्टिक्स में लेवल-04 विट्टिक्स में लेवल-04 विट्टिक्स में लेवल-04 सेट्टिक्स में लेवल-04 सेट्टिक्स में लेवल-04 सेट्टिक्स में लेवल-04 सेट्टिक्स में लेवल-04 से	से पे पंतरक को अस्तिवार पारत्य सामार्थ के विद्या के विद्या की वि

अनिवार्य पात्रता मानदंड, विस्तृत नियम एवं शर्तें, पीडब्ल्यूडी संवर्ग के विवरण हेतु और ऑनलाईन आवेदन करने के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइटें www.aiims.edu/www.aiimsexams.ac.in देखें। इस विज्ञापन से संबंधित किसी भी अन्य अधिसूचना, संशोधन, शुद्धिपत्र आदि अगर कोई होगा तो उसे केवल संस्थान की वेबसाइट पर ही डाला जाएगा। अद्यतन जानकारी के लिए कृपया एम्स, नई दिल्ली की वेबसाइट देखें।





MINT SHORTS

Twitter blue check 'probably' coming back this week, Musk says

Twitter Blue will probably "come back end of next week", billionaire owner Elon Musk said in a tweet on Saturday. Twitter on Friday paused its recently announced \$8 blue check subscription service on Friday as fake accounts mushroomed. The coveted blue mark was previously reserved for verified accounts of famous personalities and public figures. But a subscription option was rolled out earlier this week to help Twitter grow revenue.

Explosion on major Istanbul avenue kills 4; cause unclear

Istanbul: An explosion on one of Istanbul's most popular pedestrian thoroughfares killed four people and injured 38 on Sunday, authorities said. The cause of the blast on Istiklal Avenue was not immediately clear. Five prosecutors were assigned to investigate the explosion, said state-run Anadolu news agency. A video posted online showed flames erupting and a loud bang, as pedestrians turned and ran away. AP

G20 health and finance ministers launch \$1.4-billion pandemic fund

Nusa Dua, Indonesia: G20 health and finance ministers launched a \$1.4-billion fund Sunday to tackle the next global pandemic ahead of the bloc's leaders gathering for a summit on the Indonesian island of Bali but the host's president said it was not enough. The 24-nation fund is viewed as one of the early outcomes of the summit where little progress is expected on the Ukraine crisis with Russian President Vladimir Putin not in attendance. AFP

Antitrust battle over iPhone app store goes to appeals court

San Francisco: Apple is heading into a courtroom faceoff against the company behind the popular Fortnite video game, reviving a high-stakes antitrust battle over whether the digital fortress shielding the iPhone's app store illegally enriches the world's most valuable company while stifling competition. Oral arguments Monday before three judges on the Ninth Circuit Court of Appeals are the latest volley in legal battle revolving around an app store that provides a wide range of products to more than I billion iPhones and serves as a pillar in Apple's \$2.4 trillion empire.

JPMorgan bucks the trend, dodges a buyout-loan bullet

Bank avoided loans for purchases like Twitter and Citrix, which hurt competitors after markets turned choppy

Matt Wirz

feedback@livemint.com

banking, it is the deals you JPMorgan Chase & Co. has avoided most of 2022's so-called hung deals that have cost competitors billions of dollars in paper losses. Whether by luck or by design, the biggest US bank didn't make loans backing takeovers of companies such as Twitter Inc., Citrix Systems Inc. and Nielsen Holdings PLC, which fell in

ometimes in investment

value as markets turned choppy. JPMorgan's record contrasts with that of Bank of America Corp., which made large loans for buyers of Twitter, Citrix, Nielsen and others. Bank of America Chief Executive Brian Moynihan has consistently sounded an optimistic note about the US economy, clashing with JPMorgan head Jamie Dimon's gloomier warnings.

There is one thing Mr Dimon feels good about—his firm's low exposure to bad buyout loans, which bankers call leveraged loans.

"There are no real leveraged loan write-downs this quarter and that marketisn't yet cleared," Mr Dimon said on an October conference call with Wall Street analysts. "Our share of it is very small, so we're very comfortable."



JPMorgan Chase and Co. CEO Jamie Dimon is pleased about the bank's level of exposure to bad buyout loans.

Competitors attribute JPMorgan's absence as a lender on big deals in 2022 to a diminished relationship with private-equity firms in recent years. The bank also served as an adviser on some of the mergers, like Nielsen, which prevented it from providing loans, they said.

JPMorgan ranks fourth among US arrangers of buyout bonds and loans this year while Bank of America is third, according to data from Dealogic. JPMorgan's average rank over the past 10 years is seventh, compared with its average of third place during the prior decade.

JPMorgan also is grappling with the fallout from some relatively recent buyout financing that went sour, such as loans it made backing the purchase of sports betting company William Hill International. Still, it has far fewer hung deals on its balance sheet than competitors, leaving it with more cash to win new business.

Private-equity firms, corporations and individuals that acquire companies often pay in part with loans made by investment banks to the businesses they buy. The banks aim to unload the debt to fund managers for more

money than they lent out, pocketing the difference.

Buyout loans account for only a small portion of total lending in the US, and funding them doesn't necessarily mean that a bank has an unusual risk exposure.

Still, the strategy backfired this year for firms such as Bank of America, Barclays PLC, Goldman Sachs Group Inc. and Morgan Stanley, which committed in the winter and early spring to bankroll large takeovers. Interest rates subsequently rose, turning debt investors cautious and sending the price of leveraged loans

tumbling. Now the THE WALL STREET JOURNAL. banks must choose

between liquidating the loans at a loss or keeping them on their balance sheets at markeddown prices.

JPMorgan's global head of corporate debt, Kevin Foley, was a midlevel banker during the 2008 credit crisis, when the bank was swamped with deals gone wrong.

JPMorgan was lead lender on J.C Flowers & Co.'s \$25 billion takeover of student loan lender Sallie Mae, which eventually was canceled, and Cerberus Capital Management LP's troubled purchase of car maker Chrysler.

Mr Foley switched from making loans to restructuring them, tussling

with other creditors-often hedge funds—to recover as much money as possible from companies in bankruptcy court. He worked on some of $the\,most\,contentious\,work outs\,of\,the$ era, including automotive supplier Lear Corp. and newspaper publisher

Tribune Media Co. This time around, JPM organ dialed backits appetite for buyout loans in the autumn of 2021, people familiar with the matter said. Mr Foley and his team

thought the price inflation then cropping up in the US would last for years because of supply disruptions and wage inequality, the peo-

ple said. They also thought that risk was climbing in

buyout deals as rising valuations were forcing buyers to borrow excessively to make winning bids, the people said.

In January, Vista Equity Partners and the private-equity arm of Elliott Management Corp. won the buyout of cloud computing company Citrix Systems with a \$16.5 billion bid. Bank of America, Credit Suisse and Goldman Sachs committed to financing the bulk of the purchase with \$15 billion of debt. By September, they and other banks had collectively taken \$500 million of paper losses, The Wall Street Journal reported at the time.

©2022 DOW JONES & COMPANY, INC



POWERGRID invites bids through conventional mode for the following Package NIT No. | Details/Site/Salient | Downloading of Bidding Documents: | Deadline fo

	2014110/0110/04110/11	Determined and the Determinent							
689	Particulars of Works	Cost of Bidding Documents	Bid Submission						
Group G1	period of five years	Till 12.12.2022 upto 1500 Hrs.	15.12.2022						
Tel. 0124-282-2381/2365		Document Fee: Nil	15.12.2022 upto 1500 Hrs.						
4. The first Farming (Tasker Commencial and) of the hid shall be accorded to the									

The first Envelope (Techno-Commercial part) of the bid shall be opened on the same day of the deadline for Bid Submission i.e at 1530 hrs. onwards.

The complete Bidding Documents are available on our website https://www.powergrid.in for the purpose of downloading only. For further details including addendum/changes in bidding program, if any, please visit website.

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Corp. Office: "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana) Tel.: 0124-2571700-719

Reg. Office: B-9. Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110 016. Tel: 011-26560112, 26560121 www.powergrid.in, CIN: L40101DL1989GOI038121



Where Every Number tells a Story...

News in Numbers

Introducing

Exclusively on Mint App



ADANI WELSPUN EXPLORATION LIMITED adani TENDER NOTICE MUNJAL NOTICE INVITING EXPRESS OF INTEREST FOR VARIOUS CATEGORIES OF SERVICES & SUPPLIES SHOWA he Government of India has entered into a Production Sharing Contract with M/s. Adani Welspun Exploration Limited (AWEL) for Block No. MB-OSN-2005/2 allow water. Offshore Mumbai, under NELP-VII, M/s AWEL is the operator for the Block, AWEL invites Expression of Interest (EOI) from Indian & Internation

3D seismic data processing

Item Description Reference No II Engineering Services Provision of Project Management Consultancy (PMC) Services for end- to-end execution of offshore DRL/Ser/MB/19/08 and onshore surface facilities development project lling and sand face completion of development DRL/Ser/MB/19/078 III Surface Facilities Execution Contract rells. Optional scope for execution of the project. Feasibility study for sand face completion of 3 EPCIC (Engineering Procurement Construction Installatio & Commissioning) contract for execution of offshor easibility study for tie back and re-entry of two DRL/Ser/MB/19/080 IV Sub-surface (G&G) Services nallow offshore wells for completion and oduction. The 30" conductor is cut 1 meter above Core Analysis for rock strength (geomechanics) seabed and 20" casing cut 1 meter below seabed and management & completion design Tie back of 9 5/8" casing in one well is also to be done. These operations will be post installation of jacket/platform on these wells. The location has

imited visibility at seabed and high currents ompanies interested to pre-qualify for receipt of tenders are required to submit information as detailed below

Detailed description of services offered along with details of equipment and technical personnel, their experience & availability of the same for related work. List of minimum number of similar contracts / projects completed as prescribed below requirement including detailed SoW performed, loss time due t equipment breakdown & work accident details, wherever applicable (attach current contractual positions & availability of the services offered). 3.1 SI No. 1 & 2 (under Category – I) - Must have completed minimum 5 projects in the preceding 5 years

SI.No. 3 (under Category – I) - Must have completed minimum 2 projects in the preceding 5 years. 3.3 SI.No. 4 & 5 (under Category – II & III) - Must have completed minimum 2 projects in the preceding 10 years

3.4 SI.No. 6 & 7 (under Category – IV) - Must have completed minimum 2 projects in the preceding 5 years.
3.5 SI.No. 8 & 9 (under Category – IV) - Must have completed minimum 5 projects in the preceding 10 years.

The Client's name and contract details are also required to be given for all the contracts referred. AWEL may approach Client directly for feedback Details of QHSE policies, manual and safety statistics including LTI records, organogram for last 5 years.

Copies of valid ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 45001 or any other certification as applicable for intended scope of work Company's audited financial results for the last 3 years

Global Market Share & Market Share in India

BRNL

erested companies who can fulfill the specifics listed above shall submit their response including the details and references stated above by courier, withir eks of publication of this notice (i.e. by 05/12/2022). The sealed envelope should be superscripted with reference number for which the interest being expressed. ctive parties may note that mere submission of EOI and / or submission of additional information do not automatically entitle them to claim for pre-qualification

Velspun Exploration Ltd nd, Lower Parel (W), Mumbai 400 013, India, Email: AWEL.EOI@adani.com

MUNJAL SHOWA LIMITED

CIN: L34101HR1985PLC020934

Registered Office & Works: Plot No. 9-11, Maruti Industrial Area, Sector - 18, Gurugram-122015 (Haryana), Tel.:+91-124-4783000

Email: pgupta@munjalshowa.net | Website: www.munjalshowa.net

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE SECOND QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

(₹ in Lakhs, except per equity share data)

s.		3 months Ended	Year to Date	3 Months Ended
No.	Particulars Particulars	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2021
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1.	Total Income from operations	31,641.49	63,415.59	30,114.11
2.	Net Profit for the period before tax and exceptional items	891.93	1,559.90	779.65
3.	Net Profit for the period before tax and after exceptional items	891.93	925.70	779.65
4.	Net Profit for the period after tax and after exceptional items	726.47	756.95	636.91
5.	Total comprehensive income for the period (after tax)	763.89	824.30	636.91
6.	Equity Share Capital	799.93	799.93	799.93
7.	Reserves excluding revaluation reserve as on March 31, 2022		62,938.77	
8.	Earnings Per Share (after extraordinary item/s) (of Rs. 2/- each)	2.00	2.00	2.00
	Basic: (In rupees)	1.81	1.89	1.60
	Diluted: (In rupees)	1.81	1.89	1.60

Place : Gurugram

Dated: November 12, 2022

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.munjalshowa.net.

For and on behalf of the Board

(Yogesh Chander Munjal) **Chairman & Managing Director**

BHARAT ROAD NETWORK LIMITED

CIN: L45203WB2006PLC112235

Regd. Office: Plot X1- 2 & 3, Ground Floor, Block-EP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091

Email: cs@brnl.in, Website: www.brnl.in, Telephone No. +91 33 6666 2700

Extract of Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2022 and Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and Half year ended September 30, 2022

(₹ in lakhs)

DIN 00003491

		Standalone					Consolidated						
SI.	Particulars	Quarter ended				Year ended	Quarter ended		Half Year ended		Year ended		
No.	Tuttoutus	Sept 30, 2022	June 30, 2022	Sept 30, 2021	Sept 30, 2022	Sept 30, 2021	March 31, 2022	Sept 30, 2022	June 30, 2022	Sept 30, 2021	Sept 30, 2022	Sept 30, 2021	March 31, 2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1)	Total Income from operations												
	(Including Other Income)	2,198.30	737.74	2,188.23	2,936.04	5,724.03	9,565.16	7,214.00	8,903.65	5,902.41	16,117.65	10,981.48	22,672.53
2)	Net Profit /(Loss) for the period												
	(before tax and exceptional items)	43.75	(376.13)	(2,816.50)	(332.38)	(3,219.83)	(4,566.69)	(883.70)	1,513.90	(4,169.85)	630.20	(8,829.39)	(12,709.81)
3)	Net Profit /(Loss) for the period before tax												
	(after exceptional items)	43.75	(3,143.57)	(2,816.50)	(3,099.82)	(3,219.83)	(34,114.32)	(883.70)	552.62	(4,169.85)	(331.08)	(8,829.39)	(27,027.86)
4)	Net Profit /(Loss) for the period												
	after tax and share of profit/(loss) of												
	associates (after exceptional items)	44.35	(2,811.03)	(2,107.75)	(2,766.68)	(2,404.10)	(32,220.07)	(883.10)	35.58	(3,369.77)	(847.52)	(7,317.00)	(38,866.79)
5)	Total Comprehensive Income												
	for the period [comprising Profit/ (Loss)												
	for the period (after tax) and Other												
	Comprehensive Income (after tax)]	40.57	(2,814.25)	(2,106.13)	(2,773.68)	(2,400.93)	(32,227.68)	(886.88)	32.36	(3,368.15)	(854.52)	(7,313.83)	(38,848.24)
6)	Equity Share Capital	8,395.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00
7)	Other equity excluding revaluation reserves												
8)	Earnings per share (of Rs. 10/- each)								"				
	(not annualised):												
	a) Basic (Rs.)	0.05	(3.35)	(2.51)	(3.30)	(2.86)	(38.38)	(1.05)	0.04	(4.01)	(1.01)	(8.72)	(46.30)
	b) Diluted (Rs.)	0.05	(3.35)	(2.51)	(3.30)	(2.86)	(38.38)	(1.05)	0.04	(4.01)	(1.01)	(8.72)	(46.30)

1) The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e. (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and Company's website (www.brnl.in).

> For and on behalf of the Board of Directors BHARAT ROAD NETWORK LIMITED

Director DIN: 00441872

Place: Kolkata Date: November 12, 2022